

भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5014

01 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

तेलंगाना में सैनिक स्कूल

5014. श्री अनुमुला रेवंत रेड्डी:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) वर्ष 2014 के बाद से वर्ष-वार और राज्य-वार कितने सैनिक स्कूल खोले गए हैं;
- (ख) तेलंगाना में कोई नया सैनिक स्कूल नहीं खोलने का क्या कारण है;
- (ग) क्या सैनिक स्कूल खोलने के संबंध में तेलंगाना राज्य सरकार को कोई पत्र भेजा गया है; और
- (घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अजय भट्ट)

(क): वर्ष 2014 के बाद से 09 सैनिक स्कूल खोले गए हैं । वर्ष 2014 के बाद से खोले गए स्कूलों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्योरा अनुबंध में दिया गया है ।

(ख) से (घ): मौजूदा पद्धति के अंतर्गत सैनिक स्कूल राज्य सरकार के अनुरोध पर स्थापित किए जाते हैं । तेलंगाना राज्य सरकार ने वारंगल जिले में सैनिक स्कूलों की पूर्व पद्धति जिसके आधार पर एक सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया गया था और तेलंगाना सरकार और सैनिक स्कूल सोसायटी के बीच समझौता करार (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए थे, पर सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए अनुरोध किया था । इसके अलावा,

तेलंगाना सरकार से तत्पश्चात अवसंरचना सुविधाओं को पूरा करने के संबंध में कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

इसी दौरान सरकार ने कक्षा 6 से शुरू करते हुए कक्षा-वार क्रमबद्ध तरीके से गैर सरकारी संगठनों/निजी स्कूलों/राज्य सरकारों के साथ भागीदारी में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की पहल को अनुमोदन प्रदान किया है । इस संबंध में प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर, तेलंगाना के करीमनगर जिले में स्थित 'तेलंगाना समाज कल्याण आवासीय स्कूल' (टीएसडब्ल्यूआरएस) को सैनिक स्कूल सोसायटी के साथ टीएसडब्ल्यूआरएस द्वारा समझौता करार पर हस्ताक्षर करने के अध्यक्षीन नए सैनिक स्कूल के रूप में अनुमोदन प्रदान किया गया है ।

'तेलंगाना में सैनिक स्कूल' के संबंध में दिनांक 01.04.2022 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 5014 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2014 के बाद से खोले गए सैनिक स्कूलों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा

क्रम सं.	सैनिक स्कूल का नाम	राज्य	वर्ष
1.	सैनिक स्कूल कालीकिरी	आंध्र प्रदेश	2014
2.	सैनिक स्कूल छिंगछिप	मिजोरम	2017
3.	सैनिक स्कूल झूंझनु	राजस्थान	2018
4.	सैनिक स्कूल पूर्वी सियांग	अरुणाचल प्रदेश	2018
5.	सैनिक स्कूल चन्द्रपुर	महाराष्ट्र	2019
6.	सैनिक स्कूल झांसी	उत्तर प्रदेश	2019
7.	सैनिक स्कूल मैनपुरी	उत्तर प्रदेश	2019
8.	सैनिक स्कूल अमेठी	उत्तर प्रदेश	2020
9.	सैनिक स्कूल संबलपुर	ओडिशा	2020
